

बाल गंगाधर तिलक

बाल गंगाधर तिलक

(23 जुलाई 1856 - 1 अगस्त 1920)

पूर्ण स्वतंत्रता या स्वराज्य के सबसे शुरुआती व सबसे मुख्य समर्थकों में से एक



संक्षिप्त विवरण

- ◎ इन्हें लोकभान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है
- ◎ महात्मा गांधी ने उन्हें "आधुनिक भारत का निर्माता" कहा था
- ◎ शिक्षाविदः एक विपुल लेखक और पत्रकार
- ◎ संवर्धित संस्थानः डेवरकन एज्युकेशन सोसाइटी (1884) और फार्म्यूसन कॉलेज (1885)

सामाजिक और राजनीतिक योगदान

- ◎ विचारधारा: एक धर्मीनाथ हिंदू; लोगों को जागृत करने के लिये हिंदू धर्मग्रंथों का उपयोग किया
- ◎ कॉन्सेस में भूमिका: 1890 में शामिल हुए; सुरत विभाजन (1907) में महत्वपूर्ण भूमिका - उग्रवादी सुरत अधिवेशन की अध्यक्षता करना चाहते थे
- ◎ नारा: "स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूँगा!"
- ◎ लाल-बाल-पाल तिकड़ी: लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के साथ इस्तेने उग्रवादी समूह का नेतृत्व किया

स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान

- ◎ स्वदेशी आन्दोलन का प्रचार किया
- ◎ एनी बेसेट के साथ भारतीय होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया
- ◎ अप्रैल 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की

लखनऊ समझौता (1916) - राष्ट्रवादी संघर्ष में हिंदू-मुस्लिम एकता के लिये तिलक की नेतृत्व वाली कॉन्सेस और जिन्ना की अध्यक्षता वाली अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच हस्ताक्षरित

साहित्यिक कार्य

- ◎ समाचार पत्रः "केसरी" (मराठी) और "द मराठा" (अंग्रेजी)
- ◎ पुस्तकः गीता रहस्य (उनकी प्रामिद्ध रचना) और द आर्काटिक होम ऑफ द वेदाओं